

प्रेस नोट दिनांक-13.08.2022

(1). आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज दिनांक-13.08.2022 को माननीय सांसद बांदा चित्रकूट श्री आर.के.पटेल, श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा हरी झण्डी दिखाकर स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।

(2). दिनांक-12.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(3). आज दिनांक 13.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान 'मिशन शक्ति' के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(4). आज दिनांक-13.08.2022 को श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनंद एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी मानिकपुर श्री प्रमेश श्रीवास्तव की उपस्थिति में थाना मानिकपुर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये।

थाना समाधान दिवस में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर श्री गिरेन्द्र कुमार सिंह, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). आज दिनांक-13.08.2022 को श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय की अध्यक्षता में पुलिस उपाधीक्षक श्री हर्ष पाण्डेय की उपस्थिति में थाना पहाड़ी में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया।

समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये।

थाना समाधान दिवस में प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी श्री गुलाब त्रिपाठी, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।